

GE T&D India Limited

L31102DL1957PLC193993

T-5 & T-6 , Plot I-14, Axis House, Jaypee Wishtown, sector-128, Noida-201304, Uttar Pradesh

T +91 120 5021500 F +91 120 5021501

https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

May 16, 2020

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
MUMBAI 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

MUMBAI 400 051

Code No. 522275 Symbol: GET&D

Dear Sir,

Sub: Newspaper publication & copy of notice to shareholders for transfer of shares to IEPF

Please find enclosed copies of the following documents in respect of transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended:

- 1. Specimen of email sent to the shareholders whose email addresses are registered; and
- 2. Notice published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on May 16, 2020

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For GE T&D India Limited

Manoj Prasad Singh Company Secretary

Srivastava-Ssc, Abhishek (GE Global Operations)

Subject:

EXT: Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Req

DP ID & Client ID / Folio No.:1206070000008662

No. of shares of face value Rs. 2/- each: 5

Dear Shareholder,

We would like to bring your kind attention to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules"), which inter-alia provides that all shares in respect of which dividend(s) has/have remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government.

Please note that your dividend for the financial year ended 31.03.2013 with respect to the shares held by you (as mentioned above) is due for transfer to IEPF on 15.08.2020 upon completion of seven (7) years in terms of sub-section (5) of Section 124 of the Act. Accordingly, the due date for transfer of the underlying shares held by you to the DEMAT account of IEPF Authority is 15.08.2020 and the Company shall transfer the said shares within 30 days thereof by following the procedures prescribed under the Rules. Also, all subsequent dividend i.e. dividends for the Financial Year ended 31.03.2014 onwards have remained unclaimed till date

If in case you desire to bold back your holding of shares of the captioned Company from being transferred to the IEPF Authority, you are requested to encash your unclaimed dividend not later than 25th July,2020 in terms of the following procedures:

In order to claim unclaimed/ unpaid dividend for the financial year ended on 31.03.2013 and onwards, please send following documents to the Company's Registrars and Share Transfer Agents, C B Management Services (P) Ltd., Unit- GE T&D India Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019, Tel No. 033-4011-6700/2280 6692/ 2282 3643/ 2287 0263, Fax No.: 033-4011-6739, E-mail: rta@cbmsl.com.:

- a. ID Proof (a self-attested copy of your PAN Card)
- b. Address Proof (self-attested copy of your Aadhar Card/ Passport/ Utility Bill [not more than 3 months old]
- c. Unsigned and cancelled cheque leaf of the bank where you are maintaining your active core banking account so that we can transfer all subsequent dividends directly into your bank account.

Please also attach the photocopy of your share certificate (both side) and quote you Folio no. as provided above in all your documents/ communication.

Further please note that in terms of Section 124(6) of the Act and Rule 7 of the IEPF Rules, once the above captioned shares are transferred to the Authority, you may claim the said shares by making an online application in Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for re-claiming the shares, which is available on the website of the Ministry at iepf.gov.in.

With a view to complying with the requirements as set out in the aforesaid Rules, we shall initiate necessary action for transfer of the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority.

Please note, we are required to issue new share certificates for transfer of the shares to the said DEMAT Account as per the Rules and upon issue of new duplicate share certificate(s), the original share certificate(s), which stand registered in your name would stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Thereupon, no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to the said DEMAT Account pursuant to the said Rules.

Yours faithfully,
For C B Management Services (P) Ltd
Sd/Registrars

FINANCIAL EXPRESS

"THE PROPOSED Central law will help seamless movement of farm produce not only interstate, but also within the states. Anyone having a central license can buy and sell anywhere," Ashok Dalwai, chairman, Committee on Doubling Farmers'

Income, said. Announcing the decisions on Friday, finance minister Nirmala Sitharaman said the Centre will also facilitate a legal framework to enable farmers to engage with processors, aggregators, large retailers, exporters etc., in a transparent manner, which will boost their incomes. After the EC Act is amended. stock limit will be imposed only undervery exceptional circumstances like national calamities and when prices of perishables surge by 100% and non-perishables by 50%. However, no stock limit will be applicable to processors or value chain participants, subject to their installed capacity or to any trader subject to the export demand.

The move to bypass the APMC Act comes after the Centre's efforts to weaken the old APMC structure, which has long

A GOVERNMENT COMPANY)

Phone: 0484-2545011

Name of work

Supply of CS-PTFE

lined Pipes and

Fittings

Date: 16/05/2020

Marketing" as follow:

KCC-1623

strangled farm marketing and eroded farmers' incomes by forcing them to sell their produce to only the relevant APMC licencees, met with only limited success. In 2018, Maharashtra did a U-turn within a month of removing all farm produce, including livestock, from the APMC purview through an ordinance.

Of course, in certain cases (such as Bihar), the attempt to abolish the APMC structure without creating alternative marketing infrastructure for farmers only compounded their woes, a point analysts say the government has to bear in mind when it comes up with the new legislation.

However, the proposed Central law, which also promises free inter-state movement of farm commodities without any barrier, could open up avenues of confrontations between the Centre and some states that currentlyadministertheAPMC Act. Commenting on the proposed law, the finance ministry said that inter-state movement of goods is a Central subject, hinting that it's free to legislate on this issue. However, where the issue is in the concurrent list (farm marketing, for instance), the Centre's law will have precedence over any state law, it added.

The Centre came out with a draft model APMC law in 2003 and has been pushing for its

Last date of

Submitting tender

26/05/2020

Dy. General Manager (Projects)

enactment by states. Around two dozen states have enacted the model APMC law, though with some modifications, but others are reluctant to replace their existing legislation. Even where the model APMC law is supposedly adopted, the old, archaic law still continues to govern the behaviour of market participants.

Ashok Gulati, chair professor of agriculture at ICRIER, had earlier pointed out,"The system kept suffering from highly fragmented markets with insufficient infrastructure; levies and intermediation fees remained high and uneven across states; APMC licencees monopolised trade, leading to rent-seeking and lower share of farmers in the selling price."

According to the Dalwai

Committee Report, there are close to 29,547 marketing points in the country. Of these, 22% or 6,615, are regulated markets under the APMC and 22,932 are regional periodical markets. "The package effects comprehensive reforms to the agriculture sector, and backs it up with capital investments at both production and post-production segments. The challenge of finding value for farmers' surpluses is finally addressed by giving them alternative marketing channels to choose from," Dalwai told FE on

a model law for the muchneeded reforms in agriculture marketing and asked all states to emulate it, many have tried to

Mohit Singla, chairman of the Trade Promotion Council of India, said the amendment to the EC Act will help insulate the farmers from price manipulation by different forces. "The prices will now be governed by market demand only and in the long term bring better value to

After the Centre formulated

Goorej

Godrej Industries Limited CIN: L24241MH1988PLC097781

Registered Office: Godrej One, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400079, Maharashtra Tel.: 022 - 2518 8010 Fax: 022 - 25188066 Email id: investor@godrejinds.com; Website: www.godrejindustries.com NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, May 22, 2020 to, inter alia, consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2020 after these results are reviewed by the Audit Committee.

This notice is also made available on the website of the Company (www.godrejindustries.com) and on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Godrej Industries Limited Sd/-Tejal Jariwala

Company Secretary & Compliance Officer Place: Mumbai Date : May 16, 2020 (FCS 9817) JK PAPER LIMITED CIN: L21010GJ1960PLC018099

Regd. Office: P.O. Central Pulp Mills - 394 660, Fort Songadh, Distt. Tapi, Gujarat Secretarial Deptt.: Gulab Bhawan (Rear Wing), 3rd Floor, 6A, B.S.Z. Marg, New Delhi-110 002 Phone: 011-33001132, 23311112-5, E-mail: sharesjkpaper@jkmail.com, Website: www.jkpaper.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Demat Account of IEPF Authority

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended upto date (Rules), all shares in respect of which dividend has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company in favour of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

be sent, through the best possible source available with the Company in the current situation, to the concerned shareholders who have not claimed/encashed the dividend for the Financial year 2012-13 and whose shares are liable to be transferred to the DEMAT Account of IEPF during Financial Year 2020-2021 The complete details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company at www.jkpaper.com. The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

In view of the outbreak of COVID-19 pandemic, the required communication in this regard has been/will

The concerned shareholders are requested to claim their unpaid dividend for the Financial year 2012-13 onwards, by making an application to the Company at its abovementioned address of Secretarial Department with a copy marked at the e-mail sharesjkpaper@jkmail.com. In case a valid claim for the unpaid dividend is not received by the Company on or before 13th August 2020, the Company shall transfer such shares to IEPF in accordance with the procedure prescribed under the IEPF Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them, for the purpose of transfer of shares as above and upon such issue, the original share certificate(s) will stand automatically cancelled and will be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer as aforesaid. For shares held in demat form, the respective demat account will be debited and such shares, will be transferred to the demat account of the said Authority

Shareholders may kindly note that the shares transferred to IEPF including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed

under the IEPF Rules. For any queries/ assistance please speak to us or write at the above address with a copy to the undersigned

For JK Paper Limited

31 Mar 2019

Suresh Chander Gupta Vice President & Company Secretary

31 Mar 2020

31 March 2019



EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED

(formerly known as, Equitas Finance Ltd) | (Subsidiary of Equitas Holdings Ltd) Regd. Office: 4th Flr, Phase II, Spencer Plaza, No. 769, Mount Rd, Anna Salai, Chennai-2 CIN: U65191TN1993PLC025280 | www.equitasbank.com

31 March 2020

41,731.77

24,761.39

Total Assets

3.00%

29,570.65

18,641.17

2.53%

41.731.77

24,761.39

3.00%

,931,454.68 1,576,269.09

29.570.65

18,641.17

2.53%

Statement of Audited Financial Results for the six months / year ended 31 March 2020

(₹ in Lakh Six Months ended Six Months ended Year ended Year ended

at email sharesjkpaper@jkmail.com for prompt action.

Place: New Delhi

Date: 15.05.2020

Particulars

No. Audited* Audited* Audited Audited Income earned (a) + (b) + (c) 140,258.37 111,856.40 264,544.39 211,193.45 (a) Interest income from advances 128,915.80 100,468.85 242,000.67 182,365.60 (b) Income on Investments 7,778.84 10,015.29 15,765.17 25,796.12 Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds 3,563.73 1,372.26 6,778.55 3,031.73 Other Income 15,927.30 14,184.16 28,235.16 28,289.75 Total Income (1+2) 156,185.67 126,040.56 292,779.55 239,483.20 4 Interest Expended 59,497.58 48,195,51 115.013.81 96,020.06 Operating Expenses (i) + (ii) + (iii) 62,004.60 53,278.79 118,007.86 100.848.65 (i) Employee Cost 37,082.83 27,957.26 70.978.90 55.130.63 (ii) Depreciation / Amortization 4.859.16 4.664.68 9.645.45 9.177.67 (iii) Other Operating Expenses 37,383,51 20,062.61 20.656.85 36.540.35 6 | Total Expenditure, excluding Provisions and Contingencies (4+5) 233.021.67 196.868.71 121,502.18 101.474.30 Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6) 34,683,49 24.566.26 59.757.88 42,614,49 8 Provisions (other than tax) and Contingencies 5,028.31 24,663.85 17,045.86 10,240.82 9 Exceptional Items 10 Profit from Ordinary Activities before Tax (7-8-9) 17,637.63 19,537.95 32,373.67 35.094.03 3.928.04 6.779.70 10.730.49 11.317.06 11 Tax Expense 12 Net Profit from Ordinary Activities after Tax (10-11) 13,709.59 12,758.25 24,363.54 21,056.61 13 Extraordinary Items (net of Tax Expense) 13,709.59 12,758.25 24,363.54 21.056.61 14 Net Profit for the Period / Year (12-13) 15 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Share: ₹ 10 each) 105,340.16 100,594.34 105,340.16 100,594.34 124,837.51 16 Reserves excluding Revaluation Reserves 17 Analytical Ratios (i) Capital Adequacy Ratio (%) 23.61% 22.44% 23.61% 22.44% (ii) Earnings Per Share (EPS) - Not Annualised for six months -Basic / Diluted (₹ per share) 1.34 1.27 2.39 2.09 18 NPA Ratio

(c)	% of Net NPA to Advances Return on Assets - Not Annualised (% of Profit After Tax to Total Asset	1.66% 0.73%	1.44% 0.86%	1.66%	1.44%			
* Re	efer Note 11)	90	(₹ in Lakh)	1				(₹ in Lakh)
SI. No.	Particulars	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019	SI. No.	Particulars		As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
		Audited	Audited				Audited	Audited
	CAPITAL AND LIABILITIES	;	8		ASSETS		Signature and the second second	
1	Capital	105,340.16	100,594.34	6	Cash & Balances with	RBI	38,086.37	40,270.37
2	Reserves and Surplus	169,074.73	124,837.51	7	Balances with Banks a	nd Money	- 2	24
3	Deposits	1,078,840.55	900,673.63		at Call and Short Notic	е	215,597.88	85,791.15
4	Borrowings	513,487.36	397,302.61	8	Investments		234,250.62	234,445.40
5	Other Liabilities and Provisions	64,711.88	52,861.00	9	Advances		1,374,724.15	1,159,500.45
(%)	Total Liabilities	1,931,454.68	1,576,269.09	10	Fixed Assets		21,276.94	23,733.62
				11	Other Assets		47,518.72	32,528.10
	Total Liabilities	1,931,454.68	1,576,269.09	100000				107755

(a) Gross NPA

Net NPA

(b) % of Gross NPA to Advances

This audited financial results (including notes) hereafter "Statement" of Equitas Small Finance Bank Limited ("Bank" or "ESFBL") for the six months and year ended March 31, 2020 were reviewed by the Audit Committee of the Bank and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 14, 2020.

2 The above financial results of the Bank have been prepared in all material aspects, in accordance with provisions of accounting standards as specified under section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 in so far as they apply to the Bank, and other accounting principles generally accepted in India as applicable to banking companies and the applicable requirements of the Banking Regulation Act,

1949 and circulars, guidelines and directions issued by Reserve Bank of India from time to time, read with Regulation 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. 3 As a precondition to small finance bank licensing guidelines issued by the Reserve Bank of India, amongst other conditions, the Bank was required to be listed within 3 years from the date of commencement of operations (i.e from 5th September 2016). In the absence of Securities Exchange Board of India's ("SEBI") approval to a scheme of arrangement, which would have resulted in the listing of the Bank's shares, and the consequent noncompliance of the relevant listing condition, the Reserve Bank of India vide its letter dated September 06, 2019 has imposed regulatory action on the Bank, by way of restriction on opening of new branches and on the remuneration of the MD & CEO of the Bank frozen at current level, till further advice.

(In December 2019, the Bank obtained specific approval of the RBI for opening 240 banking outlets). On September 10, 2019, the Board of Directors of the Bank approved an initial public offer and listing of the equity shares on stock exchanges in India, to comply with the licensing guidelines. Subsequently, the Bank filed a Draft Red Herring Prospectus with SEBI on December 16, 2019 and Stock Exchanges (National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited). The Bank received in principle approval from stock exchanges (National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited). and observations from the SEBI on its Draft Red Herring Prospectus ("DRHP"). In March 2020, the Bank filed a revised DRHP after addressing the SEBI's comments, and was in the process of completing the Initial Public Offer ("IPO") of shares. However, due to the COVID-19 global pandemic and consequent lockdowns across the country, the completion of the listing process and the IPO of shares has been delayed. Management and the Board of Directors remain committed to completing the IPO of shares in due course, once normalcy in business operations is restored. Read with the above, the Bank continues normal course of business and operates as a going concern, and no adjustments have been considered necessary in this regard. 4 The COVID-19 pandemic (declared as such by the World Health Organisation on March 11, 2020), has contributed to a significant decline and

volatility, and a significant decrease in economic activity, in global and Indian markets. The Indian government announced a strict 40-day lockdown in India to contain the spread of the virus till May 3, 2020, which has been further extended till May 17, 2020 with some relaxations in specific areas. This has led to significant disruptions and dislocations for individuals and businesses, and has had consequential impact on regular banking operations including lending, fund-mobilisation, and collection activities. In respect of the Bank's loan book, Management has made provisions as more fully explained in Note 5 to these financial results. However, the full extent of impact of the COVID-19 pandemic on the Bank's operations, and financial metrics (including impact on provisioning on advances) will further depend on government and regulatory guidelines and future developments which are uncertain and incapable of estimation at this time.

5 In terms of the COVID-19 Regulatory Package of the RBI, vide guidelines dated March 27, 2020 and April 17, 2020, the Bank has granted a moratorium of three months on the payment of all instalments and / or interest, as applicable, falling due between March 1, 2020 and May 31, 2020 to all eligible borrowers, in accordance with the Scheme approved by the Bank's Board. For all such accounts where the moratorium is granted, the asset classification shall remain stand still during the moratorium period (i.e. the number of days past-due shall exclude the moratorium period for the purposes of asset classification under the Income Recognition, Assets Classification and Provisioning ("IRAC") norms). The Bank has made provision as on March 31, 2020 in respect of accounts in default but standard against the potential impact of COVID-19. Further, as permitted under the IRAC norms and based on management's assessment, the Bank has made a provision of ₹99.63 crores in the period ended March 31, 2020 (including ₹ 2.98 crores representing the minimum provision of entire 10% on standard assets availing moratorium where asset classification benefit is extended as required in paragraph 5 of the RBI's guidelines dated April 17, 2020), based on assessment of recoverability of advances after considering internal

6 The Reserve Bank of India, vide its circular dated April 17, 2020, has decided that banks shall not make any dividend payouts from profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020 until further instructions, with a view that banks must conserve capital in an environment of heightened uncertainty caused by COVID-19. Accordingly, the Board of Directors of the Bank, at their meeting held on May 14, 2020 has not proposed any dividend for the year ended March 31, 2020.

7 During the six month ended March 31, 2020, the Bank issued 47,458,239 equity shares of face value of ₹ 10 each on preferential basis at a premium of ₹ 42.68 each for total cash consideration of ₹ 250.01 crore on December 11, 2019 to certain investors.

8 During the six month ended March 31, 2020, the Bank granted 4,14,08,728 options to its employees and the employees of Equitas Holding Limited under the ESFB Employees Stock Option Scheme 2019. These options does not have any dilutive impact on the earnings per share.

and external information and the norms prescribed by RBI. The provision held by the bank is in excess of the RBI prescribed norms.

9 The Bank has elected to exercise the option permitted under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019. Accordingly, the Bank has recognised provision for income tax for the year ended March 31, 2020 and re-measured the balance of net deferred tax assets, basis the rate prescribed in the aforesaid ordinance. Tax expense for the year ended March 31, 2020 includes ₹ 24.50 crore resulting from write down of net deferred tax assets pertaining to earlier years.

10 The Capital to Risk Assets Ratio ("CRAR") as on March 31, 2020 and as on March 31, 2019 have been computed as per applicable Basel II requirements in accordance with RBI Master Circular No.DBOD.BP.BC.9/21.06.001/2013-14 dated 1 July 2013, on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and

Market Discipline - New Capital Adequacy Framework (NCAF) 11 The figures of the six months ended March 31, 2020 and March 31, 2019 have been derived as balancing figures between the amounts as per the annual audited accounts for the years then ended, and unaudited results for the six months ended September 30, 2019 and September 30, 2018, being

the half year of the respective financial years, which were subject to limited review, respectively. 12 Comparative figures for the previous period / year have been reclassified/regrouped, wherever necessary, to conform to the current period / year For Equitas Small Finance Bank Limited classification/ grouping. sd. VASUDEVAN PN

farm trade

THE TRAVANCORE-COCHIN CHEMICALS LIMITED

P.B. No.4004, Udyogamandal P.O., Kochi-683 501, Kerala, India

CIN: U24299KL1951SGC001237, GSTIN: 322AAACT6207BIZI

Email: projects@tcckerala.com, Website: www.tcckerala.com

NOTICE INVITING TENDER

Online bids (E-tender) are invited from reputed firms for the supply of the following

All the relevant details and the tender document can be downloaded from the site.

Tender ID

2020 TCCL 356608 1

THE KANGRA CENTRAL CO-OPERATIVE

BANK LIMITED, DHARAMSHALA (HP)-176215

NOTICE FOR EXTENSION OF SCHEDULE OF

EXPRESSION OF INTEREST

EOI/KCCB/IT/2020 -1

In view of Novel COVID-19 Lockdown, the Bank has extended EO

schedule for "Supply, Installation, Testing, Configuration, Integration

Implementation, Commissioning and Maintenance of Business Intelligence & Data Analytics (Dashboard) Software And Digita

Note: If the Novel COVID-19 Lockdown continue virtual Pre-Bio

GAURAV MERCANTILES LIMITED

3rd Floor, Tower 2B, One Indiabulls Centre, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai, Maharashtra 400 013 - Tel: 020 4540 4000. Website: www.gmlmumbai.com

email: cs@gmlmumbai.com, CIN: L74110MH1985PLC176592

NOTICE Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies

Management and Administration) Rules, 2014, read with the General Circular No.

14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued

by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") in view of COVID-19 ("MCA Circulars"), the Company is seeking consent of its shareholders for the proposed

resolution as set-out here in below, through postal ballot ("Postal Ballot") by way of

The Company has completed the dispatch of the Notice for Postal Ballot along with

explanatory statement ("Postal Ballot Notice") on May 15, 2020 to all the Members

whose name appears on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on

The Postal Ballot Notice has been sent through electronic mail to all the Members whose

email addresses are registered in the records of depository participants. In terms of

compliance with the requirements of the MCA Circulars, physical copy of the Postal Ballot

Notice and pre-paid business envelope will not be sent to the members for this Postal

Ballot and members are required to communicate their assent or dissent through the

Following matters are being put for approval under the said Postal Ballot Notice sent to the

Media Private Limited being a related party

votes electronically only in terms of MCA Circulars.

enable E-voting for this Postal Ballot.

website www.gmlmumbai.com.

Special Resolution for Alteration of Articles of Association

amendment to Memorandum of Association of the Company

The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL"

for the purpose of providing E-voting facility and members are requested to cast their

In light of the MCA Circulars, members who have not registered their email address and in

consequence could not receive the Postal Ballot Notice may get their email registered by

following the registration procedure provided under the Postal Ballot Notice. Upon

successful registration or updating of the email address, the member would get soft copy

of the notice and the procedure for E-voting along with the User ID and the Password to

The E-voting period shall commence from May 16, 2020 at 9.00 a.m. and shall end on

June 14, 2020 at 5.00 p.m. During this period, the members of the Company holding

shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, may cast

their vote electronically. The E-voting module shall be disabled by CDSL for voting

The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht, Practicing Company Secretary and Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, having CP No. 13700, as the

scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot process in a fair and

transparent manner. The Scrutinizer will submit his report after completion of the

scrutiny and the results of the Postal Ballot will be posted on the Company's website

http://gmlmumbai.com/, besides communicating to the stock exchanges where the

equity shares of the Company are listed on June 15, 2020. In case, the national

lockdown on account of COVID-19 situation is eased off and the Company's offices are

open for business, the Company will also display the results of the Postal Ballot at its

Members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owner as

on May 8, 2020 will be considered for the purpose of voting. A person who is not a member

Any Member who does not receive the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may

send an email to cs@gmlmumbai.comor subhashdhingreja@skylinerta.com.The Postal

Ballot Notice and the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's

The results of the Postal Ballot shall be declared by Chairman on June 15, 2020 and shall

be intimated to the stock exchanges on which the shares of company are listed. Also, the

In case of any queries or issues regarding E-voting, shareholders may refer the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at

www.evotingindia.com, under help section or write an email to

helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact Mr. Subhash Dhingreja, Skyline

Financial Services Pvt. Ltd, at A-505, Dattani Plaza, Andheri Kurla Road, Safeed Pool,

Andheri - East, Mumbai, Maharashtra - 400072 at his email address:

as on May 8, 2020 should treat this notice for information purpose only.

results will be posted on the Company's website www.gmlmumbai.com.

Special Resolution for shifting of Registered Office from the State of

Maharashtra to the National Capital Territory of Delhi and consequent

amendment to Memorandum & Articles of Association of the Company

Description of the Resolution

Ordinary Resolution for acquisition of the Digital Business from Quintillion

Ordinary Resolution for approval for related party transactions to be entered

upon acquisition of the Digital Business from Quintillion Media Private Limited

Special Resolution for increasing the borrowing powers and creation of

charge or mortgage or hypothecation against the assets or properties of the

Special Resolution for Change of Name of the Company and consequent

Meeting/e-Meeting may be explored, if possible. Notification fo

e-Meeting will be notified through Bank's website

Managing Director.

The Kangra Central Cooperative Bank Limited,

Dharamshala-176215.

Dated: 15.05.2020

Date of Pre-bid Meeting: 12:00 Noon, 30.05.2020

http://www.kccb.in in due course.

voting through electronic means ("E-voting"

May 8, 2020 ("Cut-off Date")

members, through E-voting only:

E-voting system only.

Item No.

Last Date of EOI Submission: Upto 1:00 P.M., 20.06.2020.

through Kerala government e-tender portal http://etenders.kerala.gov.in

Amendments/Corrigendum if any will be published only in the website.

toe the line, but comprehensive reforms have remained frustrated. Among the major states, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Gujarat and Andhra Pradesh have complied with the four key reforms mooted in the Centre's model law, namely deregulation of fruits and vegetables trade, facility for anyone to set up private market outside the purview of APMC mandis, single trading licence to enable inter-mandi trade and singlepoint levy of market fee. However, even these states haven't taken all the follow-up actions required to actually meet the reform objectives — for example, even as the state's APMC law provides for it, Maharashtra is yet to issue unified (all-mandi) licence for traders, whereas less than 1% of licences in Uttar Pradesh and Gujarat are unified ones. Rajasthan, Telangana and Uttarakhand are the only three states that have issued unified

the farmer," he added.

licences to all traders.

यूको बैंक 😭 UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

Head Office – II, Department of Information Technology 3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata–700064 NOTICE INVITING TENDER

UCO Bank invites Request for Proposals (RFPs) for the following RFP for Implementation of e-Surveillance Systems at ATMs on Opex

2. RFP for Selection of vendor to provide customer support through call center agents.

For any details, please refer to https://www.ucobank.com. Date:16.05.2020 Deputy General Manager (DIT, BPR & BTD)



U.P. JAL VIDYUT NIGAM LTD. (A Govt. of Uttar Pradesh Enterprise) 12th Floor, Shakti Bhawan Extn., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001 Website: www.upivn.org

E-TENDER NOTICE NO. 01/EE(DESIGN)/2020-21 Online e-Tenders in two parts are hereby invited from IRDA approved insurance Companies for renewal of "Standard Fire and Special Perils Policy" of UPJVNL Projects i.e. Rihand Obra, Matatila, Khara, UGC, EYC &Sheetla Projects. Part-I of the tender shall contain techno-commercial bid along with earnest

money amounting to Rs.35,000/- (Rupees Thirty five Thousand only) in the form of **Demand Draft in favour of "U.P. JalVidyut** Nigam Ltd." payable at Lucknow.Part-II shall contain price bid Tender can be downloaded from and uploaded on e-procurement website: www.etender.up.nic.in. Tender should accompany nonrefundable tender fee of Rs. 4,130/- including GST in the form of Demand Draft, in favour of U.P. JalVidyut Nigam Ltd. payable at Lucknow, in separate envelope. Offer without tender fee shall not be considered. Tender (Part-I) shall be opened on 18.06.2020 at **15:00 hrs**. Last date for submission of e-bids online and original hard copy of bid in this office is **16.06.2020** (upto 14:00 hrs)& 17.06.2020 (upto 14:00 hrs)respectively. Date of opening of price bid shall be intimated later. Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the offers without assigning any reason thereof. If the date of opening will be a holiday, the tender shall be opened on next working day at the same time. **EXECUTIVE ENGINEER (DESIGN)**

"Save Electricity For Nation"

Website: www.upjvn.org

GE T&D India Limited

(Corporate Identity Number: L31102DL1957PLC193993) Registered Office: A-18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase II. New Delhi-110020 | Ph.: 011-4161 0660; Fax: 011-41610659 Website: https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited.



NOTICE TO SHAREHOLDERS (Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund) NOTICE is hereby given to the Shareholders of GE T&D India Limited ("the Company" that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education

and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as

amended (hereinafter called 'the Rules'), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more, by any shareholder(s) shall be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF") The unpaid / unclaimed dividends have been transferred from time to time as per the

applicable provisions of the Companies Act, 1956 and / or Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the Act) to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Next due date for such transfer would be August 15, 2020 with regards to the Final dividend paid for the financial year ended March 31, 2013. The full details of such shareholders including their names, folio number or DP ID-Client

ID and the number of share(s) due for transfer are also available on the website https://www.ge.com/in/ge-td-india-limited/unclaimed-dividend. Shareholder(s) are requested to verify the details of their share(s) liable to be transferred

Notice is further given to all such shareholder(s) to forward the following requisite

ID Proof (a self-attested copy of your PAN Card) Address Proof (self-attested copy of your Aadhar Card/ Passport/Utility Bill [not more

3. Unsigned and cancelled cheque leaf of the bank where you are maintaining your

active core banking account so that we can transfer all subsequent dividends directly to the Registrars & Share Transfer Agent C B Management Services (P) Ltd., Unit- GE T&D India Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata-700019, Tel No. 033-40116700 / 2280

6692 / 22823643 / 22870263, Fax No.: 033-40116739, E-mail: rta@cbmsl.com latest by July 20, 2020 for claiming the unpaid dividend for the year ended March 31, 2013 and onwards so that the shares are not transferred to IEPF. This Notice has already been communicated to such shareholders on May 14, 2020 through e-mail whose e-mail ids are registered either with the Company or with the Depositories.

During the period of country wide Lockdown due to spreading of COVID-19, Shareholders can send the scan copies of the above-mentioned documents to the E-mail address of CB Management Services (P) Ltd as mentioned above. Hard copies can be sent after Postal Service are restored to normal. In the event, no communication is received from such Shareholders, the Company will be constrained to transfer the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority in terms of

the said rules. The concerned shareholder(s), holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred may note that the Company would be issuing new share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority DEMAT Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed Shareholder(s) may further note that the details uploaded by the Company on its website

shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new Share Certificate(s) by the Company for transfer of physical shares to the IEPF Authority. Shareholder(s) can claim back from the IEPF Authority the share(s) so transferred as well as

unclaimed dividends and corporate benefits accruing on such shares, if any, by following the process prescribed in the Rules. No claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed dividends and share(s) transferred to the IEPF pursuant to the Rules. In case shareholder(s) have any query on the subject matter and the Rules, they may

contact Company's Registrars & Share Transfer Agent, C B Management Services (P) Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata – 700 019 [Phone: (033) 2280-6692 / 93 / 94 / 4011-6700/42/24, Fax (033) 4011-6739; E-mail: rta@cbmsl.com]. For GE T&D India Limited

Manoj Prasad Singh

For Gauray Mercantiles Limited Anukrati Agarwal Company Secretary

Place: Noida Date: May 15, 2020 financiale

subhashdhingreja@skylinerta.com or Contact No. 022 28511022 / 49721245.

Place: New Delhi Date: May 15, 2020

Company Secretary

Place : Chennai Date : May 14, 2020

Managing Director and Chief Executive Officer

दोबारा व्यापार समझौते पर चीन से बात नहीं : ट्रंप

वाशिंगटन, १५ मई (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए बीजिंग के तरीके पर निराशा व्यक्त की है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में तीन लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 80 हजार सिर्फ अमेरिका से हैं।

अमेरिका और चीन ने इस साल की शुरुआत में व्यापार समझौते के पहले चरण पर दस्तखत किए थे, जिसके साथ माना गया कि दो साल से चल रहे व्यापार युद्ध का अंत हो गया। ट्रंप ने गुरुवार को को बताया कि चीन ने कहीं कहा है।



कि कहा फिलहाल उस बारे में चीन कुछ भी करने का इच्छुक नहीं है।

करना

मैंने जो भी कहा वह सही निकला। आप दूसरे देशों को देखिए वे व्यापार करने के लिए शुल्क लेते हैं और हमें उनसे शुल्क लेने की इजाजत नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि चीन ने हमेशा अमेरिका से बौद्धिक संपदा (आईपी) की चोरी की है। उन्होंने

कहा कि उन्हें कभी टोका नहीं गया। अब उन्हें टोका जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वह अभी चीन के राष्ट्रिपत शी पिछले कई हफ्तों से ट्रंप पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ रहा है। सांसदों और विचारकों का कहना है कि चीन की निष्क्रियता की वजह से वुहान से दुनियाभर में कोरोना वायरस फैला है। ट्रंप ने कहा कि वह चीनी राष्ट्रपति शी चिनिफंग से फिलहाल बात नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उनके चिनिफंग से अच्छे रिश्ते हैं। टंप ने कहा कि चीन ने उन्हें निराश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने चीन से बार-बार कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को वुहान की प्रयोगशाला जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसने इसे नहीं माना।

विश्व बैंक ने एक अरब डॉलर की मदद की मंजूरी दी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 15 मई।

विश्व बैंक ने शुक्रवार को कोरोना विषाणु महामारी के मद्देनजर गरीब, कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए एक अरब डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। ये सहायता 'भारतीय कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन' के रूप में दी जाएगी।

इसके साथ ही विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को अब तक कुल दो अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। पिछले महीने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए एक अरब अमरीकी डालर की सहायता देने की घोषणा एक अरब डॉलर की इस सहायता में 55 करोड डॉलर का वित्त बैंक की रियायती ऋण शाखा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आइडीए) के द्वारा किया जाएगा, जबकि 20 करोड डॉलर ऋण के रूप में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आइबीआरडी) द्वारा दिए जाएंगे। शेष २५ करोड़ रुपए ३० जून २०२० के बाद दिए जाएंगे।

भारत में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने मीडिया के साथ एक वेबिनार में कहा कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला

करने के लिए दुनिया भर में सरकारों को अभूतपूर्व तरीके से लॉकडाउन और सामाजिक दूरी को लागू करना पड़ा है। हालांकि, विषाणु के प्रसार को रोकने के लिए किए गए इन उपायों से अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई है और खासतौर से अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत इसका अपवाद नहीं है।

एक अरब डॉलर की इस सहायता में 55 करोड़ डॉलर का वित्त पोषण विश्व बैंक की रियायती ऋण शाखा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आइडीए) के द्वारा किया जाएगा, जबकि 20 करोड़ डॉलर ऋण के रूप में अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) द्वारा दिए जाएंगे। शेष 25 करोड़ रुपए 30 जून 2020 के बाद दिए जाएंगे।

सूचकांक में मामूली गिरावट, बैंक शेयर लुढ़के

मुंबई, 15 मई (भाषा)।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सूचकांक शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। निवेशकों की सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के वित्तीय प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ने से शेयर बाजार नीचे आया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार निवेशकों को इस बात की चिंता है। कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से प्रत्यक्ष और तत्काल मांग में वृद्धि की संभावना संभवतः नहीं है, उन्हें इससे निकट भविष्य में आर्थिक पुनरूद्धार को लेकर संदेह है।

कारोबार के दौरान 350 से अधिक अंक टूटने के बाद 30 शेयरों वाला सूचकांक बाद नुकसान से काफी हद तक उबरा और अंत में यह 25.16 अंक यानी 0.08 फीसद की मामूली गिरावट के साथ 31,097.73 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, एनएसई निफ्टी 5.90 अंक यानी 0.06 फीसद की गिरावट के साथ 9,136.85 अंक पर बंद हुआ।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में महिंद्रा एंड महिंद्रा रही। इसमें 4 फीसद से अधिक की गिरावट आई। इसके अलावा एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटो कॉर्प, सन फार्मा और आइसीआइसीआइ बैंक में भी गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के प्रभाव की अनिश्चितता के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले से भी निवेशक चिंतित हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रस्पतिवार को 3.16 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इसमें प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना शमिल हैं। वह शुक्रवार को सरकार के प्रोत्साहन पैकेज के तीसरे चरण की

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 81,970 पहुंच गई जबिक 2,649 लोगों की मौत हुई है। वैश्श्विक स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 44.43 लाख हो गई जबकि 3.02 लाख लोगों की मौत हुई है। दुनिया के अन्य बाजारों में शंघाई और हांगकांग नुकसान में रहे जबिक तोक्यो और सोल शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए। शुरूआती कारोबार में यूरोप के प्रमुख बाजारों तेजी दर्ज की गई। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 2.18 फीसद बढ़कर 31.81 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।


कोविड-19: विमानन कंपनी वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की होगी बिक्री

नई दिल्ली, 15 मई (भाषा)।

इंडिगो एयरलाइंस की सबसे बड़ी शेयरधारक इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को कहा कि उसने वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की बिक्री में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऑस्ट्रेलियाई विमानन कंपनी द्वारा कोरोना वायरस महामारी के चलते दिवालिया होने की घोषणा के तीन सप्ताह बाद हुआ।

अरबपति राहुल भाटिया के स्वामित्व वाली इंटरग्लोब की इंडिगो में 37.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबिक भारत की इस सबसे बड़ी एयरलाइन में राकेश गंगवाल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके परिवारिक ट्रस्ट की 36.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया 21 अप्रैल को बंद हो गई थी, जिसके चलते 16,000 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी विमानन कंपनी वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने ऋण संकट के चलते अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए दिवाला प्रक्रिया के तहत संरक्षण मांगा था और इस संबंध में



इंडिगो की सबसे बडी शेयरधारक इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज वर्जिन ऑस्ट्रेलिया को खरीदने की दौड़ में शामिल

लेखा फर्म डेलॉयट को दिवाला प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था।

इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने कहा वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और हम उस समझौते की गोपनीयता संबंधी आवश्यकताओं से बंधे हैं।

इसलिए हम इस समय आगे कुछ भी कहने में असमर्थ हैं।

आइईएक्स की मार्च तिमाही में बिजली बिक्री 40 फीसद बढ़ी

नई दिल्ली, 15 मई (भाषा)।

बिजली खरीद-फरोख्त बाजार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आइएएक्स) में विद्युत बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही में करीब 40 फीसद उछलकर 1,383.5 करोड़ यूनिट रही। इससे एक्सचेंज का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। एक्सचेंज ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एक साल पहले 31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही में उसकी बिजली की बिक्री 990.8 करोड़ यूनिट रही थी।ल पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में आइईएक्स में बिजली

बिक्री 5,386.2 करोड़ यूनिट रही जो एक साल पहले 2018-19 में 5218.9 करोड़ यूनिट रही थी।

कंपनी ने कहा कि टर्म अहेड मार्केट (टीएएम) के तहत बिक्री मात्रा सालाना आधार पर 89 फीसद बढ़ी। कीमत मामले में 'डे अहेड मार्केट' यानी अगले दिन की आपूर्ति के लिए कीमतों में 2019-20 की चौथी तिमाही में 14 फीसद की कमी आई। आइईएक्स के अनुसार बेहतर मूल्य के कारण वाणिज्यक और औद्योगिक ग्राहकों ने

आलोच्य तिमाही में 41 फीसद अधिक बिजली

एक्सचेंज का एकीकृत शुद्ध लाभ 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष में 20 फीसद बढ़कर 45.61 करोड़ रुपए रहा। बृहस्पतिवार को जारी आंकड़े के अनुसार एक्सचेंज की कुल आय 2019-20 की चौथी तिमाही में बढ़कर 79.59 करोड़ रुपए रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 67.83 करोड़ रुपए थी। पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 175.71 करोड़ रुपए रहा जो एक साल पहले 165.03 करोड़ रुपए था।



The Project Manager, Kushinagar Unit, Deoria invites for and or behalf of Managing Director U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd., Online percentage rate bids in two bid system for the following work: NIT No. 60/G M. (GKP-Zone) / tender / Kushi Nagar Unit/RNN/-20-21, Dated 13-05-2020 Name of Work: CONSTRUCTION OF 02 BLOCKS TRANSIT HOSTEL IN POLICE LINE AT DISTRICT DEORIA (U.P.) Estimated Bid Value: Rs. 1851.59 Lakh (Civil Works: Rs

Rs. 36.80 Lakh, Period of Completion: 18 month including rainy season. Last time and date of Submission of bid: 05:00 PM on Dt The bid forms and other details can be obtained / downloaded from the website: https://etender.up.nic.in The NIT si also

1521.58 Lakh, Electrical Works: Rs 312.96 Lakh), Earnest Money

वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंगाल सरकार ने पत्र जारी कर लगाया आरोप 8,800 अरब डॉलर का नुकसान : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 15 मई (भाषा)।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 अरब से 8,800 अरब डॉलर तक नुकसान हो सकता है। इसमें दक्षिण एशिया के सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) पर 142 अरब से 218 अरब डॉलर तक असर होगा। एडीबी ने एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.800 अरब से 8.800 अरब डॉलर तक नुकसान हो सकता है, जो वैश्विक जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत के बराबर है। एडीबी ने कोविड-19 के संभावित आर्थिक असर के नए मृल्यांकन में कहा कि दक्षिण एशिया की जीडीपी में 3.9 प्रतिशत से छह प्रतिशत तक कमी आएगी। ऐसा बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में सख्त प्रतिबंधों के चलते होगा। इस बहुपक्षीय एजंसी ने कहा कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक नुकसान 1,700 से 2,500 अरब डॉलर के बीच हो सकता है।

विदेश में फंसे लोगों को लाने के लिए विमान नहीं दे रहा केंद्र

कोलकाता, १५ मई (जनसत्ता)।

राज्य सरकार सभी तरह के एहतियात के साथ विदेशों में फंसे बंगालियों को वापस लाने के लिए तैयार है। एक हफ्ते पहले केंद्र सरकार को इस बारे में पत्र लिख कर बताया गया था लेकिन इसके बाद भी अभी तक केंद्र की ओर से कोलकाता के लिए कोई भी अंतरराष्ट्रीय उडान को मंजुरी प्रदान नहीं की गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बारे में ट्विट करके दावा

वंदे भारत मिशन के तहत दूसरे चरण में 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया विशेष विमान चला रही है लेकिन इस परियोजना के पहले चरण में भी बंगाल के लिए कोई उड़ान नहीं रखी गई थी और दूसरे चरण में विदेश में फंसे लोग कोलकाता में नहीं लौट रहे।

राज्य गृह विभाग की ओर से ट्विट के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को राज्य के गई थी। बंगाल विमान की प्रतीक्षा कर रहा है। मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की ओर से लिखा 8 मई का पत्र भी शामिल किया गया है। इस पत्र में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को बताया गया है कि विदेश से किसी व्यक्ति के यहां लौटने पर राज्य सरकार की ओर से पृथकवास में रखने की पुरी तैयारियां की गई हैं। कोलकाता हवाई अड्डे पर भी पूरी तैयारी की गई है। विदेश से लौटने वाले लोगों की विस्तारित सूची, जिसमें यात्रियों के नाम समेत दूसरी जानकारी शामिल रहे, का ब्योरा भी केंद्र से मांगा गया था।

राज्य सरकार की ओर से यह पत्र जारी कर-के लोगों को बताया गया हम विदेश में रहने वाले

भी बंगाल के लिए कोई उड़ान नहीं है। इससे लोगों को लौटाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए पृथकवास समेत सारे इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में केंद्र को बहुत समय पहले जानकारी दी इसके पहले प्रवासी श्रमिकों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिख कर आरोप लगाया था कि बंगाल ट्रेनों को राज्य में घुसने नहीं दे रहा है। जबिक राज्य का कहना था कि पहले से ही 12 ट्रेनों में लोगों को लाने की व्यवस्था की गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने राज्य सरकार के आरोपों के जवाब में कहा कि वह राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है और केंद्र का वंदे भारत मिशन सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए है। सरकार ने कोरोना विषाणु पाबंदियों के चलते विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सात मई को वंदे भारत मिशन शरू किया था।

अंचल कार्यालय:-6 वी मंजिल,फार्च्युन हाईटस बैंक के पैनल हेतु पूर्व में अच्छी स्थिती एंव प्रतिष्ठा रखने वाली किसी भी कम्पनी /फर्म जैसे ऋण वसूली /प्रवंतन एजेंटों के ऋ

available on https://www.uprnn.co.in

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड

(CIN: L31102DL1957PLC193993)

पंजीकृत कार्यालयः ए—18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2 नई दिल्ली-110020, **फोन नः** 91-11-4161 0660 **फैक्स नः** 91-11-4161 0659 वेबसाईटः http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited

शेयरधारकों को नोटिस (निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए शेयरों का स्थानांतरण) जीई टीएण्डडी इण्डिया लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा

अन्तरण तथा वापसी) नियम, 2016 यथासंशोधित (इसके पश्चात "नियम" कहा जायेगा) के अनुसार जिन शेयरे के लाभांश प्रदान नहीं किये गये हैं अथवा सात (7) या इससे अधिक लगातार वर्षों से किसी भी शेयरधारक(कों द्वारा दावा नहीं किया गया है उसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में अन्तरित अप्रदत्त / दावारहित लाभांशों को कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा / अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इसके

पश्चात इसे अधिनियम कहा जायेगा) के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अन्तरित किया गया है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष हेत् अन्तिम प्रदत्त लाभांश के सन्दर्भ में ऐसे अन्तरणों की अगली नियत तिथि 15 अगस्त, 2020 होगी। ऐसे शेयरधारकों के पर्ण विवरण जिनमें उनके नाम, फोलियो नंबर या डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी और

स्थानांतरण के कारण शेयर(ओं) की संख्या भी वेबसाइट https://www.ge.com/in/ge-td-india-

शेयरधारक(कों) से अनुरोध है कि वे अपने हिस्से के विवरणों को सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हे आईईपीएफ पाधिकरण दारा हस्तांतरित किया जाना है।

निम्नलिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अग्रेषित करने के लिए ऐसे सभी शेयरधारक(कों) को नोटिस दिय

आईडी प्रमाण (आपके पैन कार्ड की एक स्व—सत्यापित प्रति)

पता प्रमाण (आपके आधार कार्ड / पासपोर्ट / यूटिलीटी बिल की एक स्व-सत्यापित प्रति)– 3 महीने वो बैंक जहां आप अपना बिना साईन और कैंसिल चैक सक्रिय कोर बैंकिंग खाता में बनाए रखा है ताकि हम

बाद के सभी लाभांश को सीधे आपके बैंक खाते में टांसफर कर सकें। रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लिमिटेड, यूनिट– GE T&D India Limited

P-22, Bondel Road, Kolkata- 700019, Tel No. 033-40116700 / 22806692 / 22823643 / 2287 0263, Fax:033-40116739, Email: rta@cbmsl.com, 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अवैतनिक लाभांश का दावा करने के लिए जुलाई 20, 2020 तक भेजें ताकि बाद में शेयर आईईपीएफ मे

यह नोटिस 14 मई. 2020 को ई-मेल के माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को पहले ही सचित किया जा चका ह जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

COVID-19 के प्रसार के कारण देश व्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान, शेयरधारक उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां सीबी प्रबंधन सेवा (प्रा) लिमिटेड के ई—मेल पर भेज सकते हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गय है। पोस्टल सर्विस सामान्य होने के बाद हार्ड कॉपी भेजी जा सकती है।

यदि ऐसे शेयरधारकों से कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो कम्पनी कथित नियमों के सन्दर्भानुसार शेयरों क अन्तरण आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित करने के लिए बाध्य होगी। कागजी प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सम्बद्ध शेयरधारक तथा जिनके शेयर अन्तरित करने योग्य हैं वे ध्यान रखें कि कम्पनी नियम के अनसार आईईपीएफ डीमैट खाते में अन्तरित करने के उददेश्य से उनके द्वारा धारित नए शेयरों को निर्गत करेगी और ऐसे निर्गमन पर उनके नाम से पंजीकत मल शेयर प्रमाणपत्र खतः ही निरस्त हो जायेंगे और

शेयरधारक पुनः ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड विवरण कम्पनी द्वारा कागजी शेयरों के आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित करने हेतु नए शेयर प्रमाणपत्र के निर्गमन के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त सूचना के रूप

शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ऐसे अन्तरित शेयर(रों) तथा दावारहित लाभांश एवं ऐसे शेयरे से अर्जित कारपोरेट लाभों का दावा, यदि कोई हो, पुनः आईईपीएफ प्राधिकरण से कर सकते हैं। नियमों के अनुसार दावारहित लाभाश तथा आईईपीएफ में अन्तरित शेयर(रों) के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के विरुद्ध कोई दाव नहीं किया जा सकेगा।

यदि शेयरधारकों को इस विषय—वस्तु और नियमों के बारे में कोई सवाल है तो वे कम्पनी के पंजीयकों और शेयर ट्रांसफर एजेंट, सी बी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पी–22, बोन्देल रोड, कोलकाता—70001s [फोनः (033) 2280-6692/93/94/4011-6700/42/24, फैक्स (033) 4011-6739; ई-मेल rta@cbmsl.com}] पर सम्पर्क कर सकते हैं।

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए

मनोज प्रसाद सिंह

स्थान : नई दिल्ली

असम सरकार ने पूर्णबंदी दो हफ्ते और बढ़ाने के लिए केंद्र को लिखा पत्र

केंद्र को पत्र लिखकर पूर्णबंदी को 18 मई से दो और हफ्तों के लिए आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। कोरोना के चलते लागु पूर्णबंदी का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होना है। सोनोवाल ने यहाँ सेवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों को पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने को लेकर शुक्रवार तक अपनी प्रतिक्रिया देनी थी और असम सरकार पहले ही अपने पक्ष से केंद्र को अवगत करा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र से पूर्णबंदी को दो और हफ्तों के लिए बढ़ाने की अपील की है। हमने इस बारे में अपने विस्तृत विचार उन्हें पहले ही भेज दिए हैं।

सोनोवाल ने कहा कि उन्होंने बंद के चौथे चरण में उन रियायतों पर भी अपने विचार रख दिए हैं जो वह राज्य के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस पर विचार करने दिया जाए। मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। सभी राज्यों ने केंद्र को लिखा है जो बंद की अवधि बढ़ाए जाने पर फैसला लेगा।

सोनोवाल ने कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियां आने वाले समय में और बढ़ेंगी लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी चुनौती होगी। मैं जनता से केवल यह आग्रह करता हूं कि वे सामाजिक दूरी के नियम का पालन करें। हमें धैर्य के साथ इसका सामना करना होगा। कोरोना असाधारण, अभूतपूर्व चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जारी पूर्णबंदी के दौरान, राज्य के सरकरी तंत्र ने ऐसे करीब 44 लाख लोगों को राशन उपलब्ध कराया जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी नहीं थे। उन्होंने कहा कि कई गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और लोग इस संकट के समय गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आए। हम उनके आभारी हैं। सोनोवाल ने चिकित्सकों, नर्सों और अन्य चिकित्साकर्मियों समेत अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे लोगों के अलावा पुलिस एवं मीडिया जैसी आवश्यक सेवाओं के लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने लोगों का जीवन बचाने में 'अत्यधिक योगदान' दिया है।

गुवाहाटी, 15 मई (भाषा)।

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने

फिल्मों के डिजिटल प्रदर्शन को लेकर निर्माताओं व मल्टीप्लेक्सों में मतभेद

दो बड़ी बॉलीवुड फिल्मों समेत सात फिल्मों की सीधे डिजिटल माध्यमों पर प्रदर्शित होने को लेकर फिल्म उद्योग दोफाड़ हो गई है जिसमें कई मल्टीप्लेक्स मालिकों का कहना है कि उनके लिए यह खतरे की घंटी है जबकि निर्माताओं का कहना है कि वे उनके असंगत संदेशों से निराश हैं।

ऐसे में जबिक मनोरंजन जगत कोरोना महामारी के चलते लागू पूर्णबंदी के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठा रहा है, इस वाकयुद्ध की

शरुआत तब हुई जब अमेजन पाइम वीडियो ने अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत 'गुलाबो सिताबो' और विद्या बालन की 'शकुंतला देवी' के सीधे डिजिटल प्रीमियर के अधिकार खरीद लिये हैं। दक्षिण भारत की पांच फिल्मों का प्रदर्शन भी डिजिटल माध्यमों के जरिए होगा।

ऐसी खबरें हैं कि अक्षय कुमार की 'लक्ष्मी बम', जाह्नवी कपूर की 'गुंजन सक्सेना' , अमिताभ बच्चन की 'झुंड' और अभिषेक बच्चन की 'लूडो' का प्रदर्शन भी डिजिटल हो सकता है। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन

पीवीआर ने कहा कि कछ निर्माताओं के डिजिटल रिलीज के फैसले से वे निराश हैं।

पीवीआर पिक्चर्स के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी ने कहा कि फिल्मकारों के रचनात्मक कौशल और परिश्रम की बानगी सिनेमा की थिएटर में प्रदर्शित होने से ही दर्शकों को देखने को मिलती है। दशकों से ऐसा चला आ रहा है। भारत ही नहीं, विदेश में भी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सिनेमा बंद है लेकिन हालात सामान्य होने पर लोग सिनेमाघरों में

बंगाल : हिंसा ग्रस्त हुगली से धारा 144 हटी

इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल

कोलकाता, १५ मई (भाषा)।

हगली जिला प्रशासन ने शुक्रवार को तेलिनीपाड़ा, चंदननगर और श्रीरामपुर के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से स्थिति बेहतर होने के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए प्रतिबंध हटा दिए।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। चंदननगर के पुलिस आयुक्त हुमायूं कबीर ने कहा कि गुरुवार से यहां हिंसा की कोई खबर नहीं है। स्थित बेहतर होने के बाद हमने सीआरपीसी की धारा 144 यहां से हटा दी

है। इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी के नियमों का पालन करते हुए कुछ लोगों ने यहां जुमे की नमाज भी अदा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक दुरी बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए सुबह कुछ दुकानें और बाजार खुले। कबीर ने बताया कि पुलिस हालांकि हिंसा के केंद्र तेलीनीपाड़ा में गश्त लगाना जारी रखेगी।

जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अन्य इलाकों में चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी।

तेलिनीपाड़ा में पिछले सप्ताह एक समुदाय के कुछ लोगों ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय को

'कोरोना' कहा जिससे उपजे विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया था। इस दौरान तेलिनीपाड़ा में स्थित विक्टोरिया जुट मिल क्षेत्र में दो समुदायों के लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, बम फेंके गए और दुकानों को आग भी लगा दी गई। स्थिति को काब में लाने के लिए पुलिस को लाठी-चार्ज करना पड़ा था। मामले में अभी तक कम से कम 129 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि हिंसा

में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई